

एशियाई खेलों में खेल चुके देश के प्रमुख गोल्फर का सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना

टॉप 50 खिलाड़ियों में आना है मेरा लक्ष्य : जीव मिलखा

नई दिल्ली | वार्ता

भारत के शीर्ष गोल्फरों में से एक जीव मिलखा सिंह का लक्ष्य इस वर्ष मार्च तक दुनिया के टॉप 50 खिलाड़ियों में आना है ताकि वह मास्टर्स में खेल सकें। जीव साथ ही 2016 के रियो ओलंपिक में देश के लिए खेलने का भी सपना रखते हैं।

जीव ने सोमवार को यहां गुजरात कैसविले चैलेंज गोल्फ टूर्नामेंट की घोषणा के अवसर पर कहा, मैं इस समय पूरी तरह फिट हूं और मैं चाहता हूं कि मार्च तक टॉप 50 खिलाड़ियों में पहुंच सकूं ताकि फिर मैं मास्टर्स टूर्नामेंट में खेल सकूं। यदि मैं मार्च तक टॉप 50 में नहीं भी पहुंच पाता हूं तो भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी फिटनेस बेहतर रखूं। यदि फिटनेस अच्छी रहती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शीर्ष 50 में पहुंच सकता हूं।

कैसविले गोल्फ टूर्नामेंट

- कैसविले गोल्फ एंड कंट्री क्लब में 31 जनवरी से तीन फरवरी तक होगा टूर्नामेंट
- टूर्नामेंट का प्रमुख आकर्षक प्रो-एम में क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी होगी

भारत के लिए 1990 के एशियाई खेलों में खेल चुके जीव का सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। जीव ने कहा, मेरे पिता मिलखा सिंह ओलंपिक में खेले थे और मैं भी चाहता हूं कि मैं एक बार ओलंपिक में उतरूं ताकि हमारे पूरे परिवार का सपना पूरा हो सके। कैसविले टूर्नामेंट का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में स्थित कैसविले गोल्फ एंड कंट्री क्लब में 31 जनवरी से तीन फरवरी तक होना



● जीव मिलखा सिंह, गोल्फर, भारतीय है जिसमें 120 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में दो लाख यूरो की पुरस्कार राशि दी जाएगी। टूर्नामेंट में यूरोपियन चैलेंज टूर के 63 सदस्य और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया-

पीजीटीआईके 57 सदस्य उतरेंगे।

जीव ने बताया कि इस टूर्नामेंट का एक प्रमुख आकर्षक प्रो-एम में क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी होगी। उन्होंने कहा सचिन

प्रो-एम में आएंगे लेकिन वह खेलेंगे नहीं। उनकी सिर्फ उपस्थिति मात्र होगी। फिर भी हम चाहेंगे कि वह गोल्फ में स्टिक घुमाएं और भविष्य में गोल्फर बनने की शुरुआत यहीं से करें। वैसे सचिन गोल्फ कोर्स में ड्राइविंग रेंज तक पहुंच चुके हैं।

सचिन, जीव और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कैसविले गोल्फ एंड कंट्री क्लब के ब्रांड एंबेसेडर हैं। सचिन ने हाल ही में वनडे से संन्यास ले लिया था। जीव से यह पूछने पर कि 40 वर्ष के लगभग पहुंचने पर खिलाड़ी को अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा, मेरे पिता कहा करते हैं कि शरीर आपका मंदिर है। आपका उसका जितना सम्मान करेंगे उतनी आपकी फिटनेस ठीक रहेगी। मैं अपनी फिटनेस के लिए योगा करता हूं और जिम भी जाता हूं।